

आइए सुपर के बारे में बात करें

सुपरएनुएशन क्या होता है?

सुपरएनुएशन (*Superannuation*) (इसे "सुपर" (*Super*) के नाम से भी जाना जाता है)। ये आपके नौकरीय जीवन के दौरान पैसों की बचत करने का तरीका है ताकि आपके निवृत्त (*retire*) होने पर आपको इस बचत का लाभ हो।

सुपर फंडस (*super funds*), जैसे की LUCRF Super, पैसों को निवेश (*invest*) करता है ताकि आपको उन पैसों पर इंटरेस्ट मिलें और आपकी बचत बढ़ें।

आपके रिटायर होने पर, आप अपने नौकरीय जीवन में ऐकत्रित हुए सुपर को निकाल (*withdraw*) सकते हैं।

आपको सुपर कौन देता है?

आपके नियोजक (*Employer*) का कानूनी तौर पर यह कर्तव्य होता है कि वह आपको न्यूनतम सुपर (*minimum super*) का भुगतान करें। वर्तमान समय में उनके लिये ये जरूरी है कि वो आपके सकल वेतन (*gross salary*) के न्यूनतम (*minimum*) 9.5% pay करें।

यदि आप चाहें तो आप सुपर में और अधिक पैसे डाल सकते हैं। ऐसा करने पर, हो सकता है कि आपको अधिकतम कर (*generous tax incentives*) की बचत हो और आप सरकारी भुगतानों (*government payments*) के पात्र हो। जितने अधिक पैसे आप अभी अपने सुपर में डालेंगे, उतनी ही अधिक बचत आपके निवृत्त (*retire*) होने पर होगी।

सुपर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

ऑस्ट्रेलिया (*Australia*) के लोगों का जीवन काल बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपको निवृत्त (*retire*) होने पर आपसे पहले कि पीढ़ी (*generation*) से ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी।

हो सकता है कि सिर्फ सरकार कि तरफ़ से मिलने वाली ऐज पेंशन (*age pension*) से आपका गुजारा ना हो पाये। उस दौरान आपका सुपर अकाउंट (*super account*) ही आपकी सब से बड़ी संपत्तियों में से एक होगा |

अधिकतम (*maximum*) लोगों के लिए ये 40 से अधिक साल कि बचत होती है |

आप अपना सुपर कब प्राप्त कर सकते हैं?

आपके रिटायर होने तक ये आपके सुपर अकाउंट में रहता है।

आप निम्नलिखित परिस्थितियों में अपना सुपर प्राप्त कर सकते हैं।

- आपकी आयु संरक्षण आयु (*preservation age*) कि हो गई है और आप रिटायर हो गये है,
- आपकी आयु 65 साल की है (भले ही आप रिटायर हुए हो या नहीं)।

संरक्षण आयु वह कम से कम आयु है जब आप अपने सुपर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका निर्धारण सरकार के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

जन्म तिथि	संरक्षण आयु
1/7/60 से पहले	55
1/7/60 – 30/6/61	56
1/7/61 – 30/6/62	57
1/7/62 – 30/6/63	58
1/7/63 – 30/6/64	59
30/6/64 के बाद	60

आपके अपनी संरक्षण आयु के होने पर, आपके पास यह विकल्प (*option*) है कि आप नौकरी करना जारी रखें और अपने सुपर के एक भाग का प्रयोग करके अपनी आमदनी को बढ़ाते रहें।

विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि सरकार आपको समय से पहले अपने सुपर को प्राप्त करने दे।

सहायता! मेरे एक से अधिक सुपर फंड हैं।

एक से अधिक सुपर फंड रखने का अर्थ है कि आप एक से अधिक जगह फीस दे रहे हैं।

कई वर्षों के दौरान, ये फीस हज़ारों डालरों में हो सकती है, जिसके कारण आवश्यकता पड़ने पर आपके पास ज़रूरत से कम पैसे रह जाते हैं।

हम आपके खोए सुपर का पता लगाने में आपकी सहायता कर सकते हैं और आपके फंड्स का मेल (*consolidate*) करने में आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आपको केवल एक अकाउंट का ही ध्यान रखना पड़े।

अपने सुपर को LUCRF Super अकाउंट में स्थानांतरित (*transfer*) करके अपने सुपर का नियंत्रण (*control*) अपने हाथ में लें।

मैं *LUCRF Super* का सदस्य (*member*) कैसे बन सकता/सकती हूँ?

बस हमारा *Member Application* फॉर्म भरें और हमें वापस भेजें।

यदि *LUCRF Super* आपके नियोजक (*employer*) का *default fund* नहीं है तो आपको हमारा *Choice of Super Fund* फॉर्म भी भरना होगा और इसे अपने नियोजक (*employer*) को देना होगा।

आप ये फॉर्म lucrf.com.au से डाउनलोड (*download*) कर सकते हैं या हमें 1300 130 780 पर फोन करें।

हाल ही का अनुसंधान (*research*) दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया (*Australia*) में सबसे अधिक संतुष्ट सुपर सदस्य (*super members*) में कुछ हमारे सदस्य हैं।

Roy Morgan Research, Roy Morgan Superannuation and Wealth Report, 2015.

LUCRF Super के बारे में थोड़ी जानकारी

हम ऑस्ट्रेलिया (*Australia*) के सबसे पहले औद्योगिक फंड (*industry fund*) हैं, हमारी स्थापना 1978 में हुई थी।

हमारा लक्ष्य कम से कम कीमत (*cost*) पर लगातार प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिलाभ (*competitive returns*) प्रदान करना है।

हमारे सदस्य अलग-अलग व्यवसायों से हैं और भिन्न-भिन्न आयु वर्ग के हैं तथा कोई भी हमारी सदस्यता (*membership*) ले सकता है। वर्तमान समय में 160,000 से अधिक सदस्य हमारी सहभागी हैं, 20,000 से ज़्यादा नियोजक (*employers*) हैं और मैनेजमेंट के अधीन हमारे \$6 बिलियन से ज़्यादा फंड हैं।

हम केवल अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिए संचालन करते हैं, आपकी पहली नौकरी से लेकर आपकी रिटायरमेंट और उसके बाद भी हम आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं।

LUCRF Super से क्यूँ जुड़ें?

- कम फीस (*low fees*)
- लम्बी अवधि के दृढ़ निवेश रिटर्नस (*strong long-term returns*)
- आतंरिक संपर्क केन्द्र (*in-house contact centre*) और एडमिनिस्ट्रेशन (*administration*).
- व्यक्तिगत फाइनेंशियल एडवाइस (*personalised financial advice*)
- पुरस्कार विजेता सुपर और पेंशन फंड (*award winning super and pension products*)
- निवेश के व्यापक विकल्प (*a wide range of investment options*)
- स्थिति के अनुरूप इंश्योरेंस (*flexible insurance*)
- सुरक्षित मोबाइल एप्प और ऑनलाइन एक्सेस। (*secure mobile app and online access*).



Contact us

1300 130 780

lucrf.com.au



LUCRFsuper

Australia's first industry fund

